FINANCIAL EXPRESS

3 months ended

Front-running case: Sebi bans 19 entities

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, July 1

SEBI HAS PASSED a confirmatory order barring 19 entities, including individuals, from the securities market till further orders in a case of frontrunning activities related to Reliance Securities.

In August 20, the watchdog had passed an interim order barring a number of individuals and entities from the capital markets after it unearthed a case of front running by some dealers of Reliance Securities and their connected entities by using their prior access to sell and buy orders by Tata Absolute Return Fund.

The latest order, dated June 30, has been issued after assessing whether its directions passed against a number of entities in August 2020 need to be confirmed, revoked or modified during the pendency of investigation in the matter.

In the latest order running into 75 pages, Sebi said the findings are "prima facie" and that a detailed investigation in the matter is in progress which may bring out additional roles of omission or commission of the entities, if any.

Sebi fines four entities for non-genuine trades in illiquid stock options on BSE Sebi imposed a total fine of

₹29 lakh on four entities for fraudulent and manipulative trading in illiquid stock options segment on the BSE. The regulator observed that

such large-scale reversal of trades in stock options led to creation of artificial volume at BSE. Thus, Sebi conducted a probe from April 2014 to September 2015, and found that 81.38% of the trades executed in stock options were non-genuine, which led to the creation of artificial volume.

Srei Infra Fin board okays fund-raising of up to ₹2,500 cr

SREI INFRASTRUCTURE

FINANCE on Thursday said its board has approved a resolution to raise up to ₹2,500 crore through various means, including qualified institutional placement. The company is planning to raise capital by way of one or more instruments — through public offer, qualified institutional placement (QIP), private placement, preferential issue or rights issue of shares. "The board of directors in...

meeting today passed a resolution to raise up to ₹2,500 crore," Srei Infrastructure Finance said in a statement on Thursday.

MUTUALFUNDS

PARENTERAL DRUGS (INDIA) LIMITED PDPL CIN: L24100MH1983PLC126481

Regd. Office: 340, Laxmi Plaza, Laxmi Industrial Estate, New Link Road, Andheri (W), Mumbai Website: www.pdindia.com ; E-mail: pdpl@pdindia.com ;Tel: (022) 61725900-01; Fax: (022) 26333763

Extract of Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March .2021

Sr. No.	Particulars	Ended 31-03-2021 (Audited)	Ended 31-12-2020 (Unaudited)	Ended 31-03-2020 (Audited)	Ended 31-03-2021 (Audited)	Ended 31-03-2020 (Audited)
1	Total Income From Operation	259.65	204.89	878.75	1223.13	3212.66
2	Net Profit / (Loss) (before taxes and Extraordinary items)	(3336.01)	(3928.63)	(3691.67)	(15447.19)	(14173.60)
3	Net Profit / (Loss) before taxes (after Extraordinary items)	(3,336.01)	(3,928.63)	(3,691.67)	(15,447.19)	(14,173.60)
4	Net Profit / (Loss) after taxes (after Extraordinary items)	(2,484.54)	(3,097.46)	(3,193.46)	(12,171.29)	(11,407.26)
5	Total comprehensive Income for the period (comprising profit (loss) and other comprehensive income for the period after tax)	(2,452.85)	(3,102.75)	(3,222.07)	(12,157.10)	(11,438.46)
6	Paid-up equity share capital (Face Value Rs, 10/- each)	2981.63	2961.63	2981.63	2961.63	2981.63
7	Reserve (excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year)	NA	NA	NA	NA	(66317.48)
8	Earnings per share (for discontinued & continuing operation):					
- 10	(a) Basic	(8.33)	(10.41)	(10.71)	(40.82)	(38.36)
	(b) Diluted	(8.33)	(10.41)	(10.71)	(40.82)	(38.36)

The above audited consolidated financial results for the quarter and year ended 31 st March, 2021 have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable beginning April 1, 2017. Additional information on audited standalone financial results are given below:

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 31-03-2021 (Audited)	Quarter Ended 31-12-2020 (Unaudited)	Quarter Ended 31-03-2020 (Audited)	Year Ended 31-03-2021 (Audited)	Year Ended 31-03-2020 (Audited)
1	Total Income from operations (net)	259.65	204.89	878.75	1,223.13	3,212.66
ii .	Profit/Loss before tax	(3,335.86)	(3,928.63)	(3,691.44)	(15,447.04)	(14,173.33)
iii	Profit/Loss after tax	(2,452.70)	(3,102.75)	(3,221.84)	(12,156.95)	(11,438.19)

- at their respective meeting held on 30-06-2021
- The figures for the quarter ended March 31, 2021 and March 31, 2020 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the unaudited published figures upto nine months of the relevant financial year which were subject to limited review by the statutory auditor of the company.
- At the moment the Company is having only one reportable segment in accordance with Ind AS 108 (segment reporting) as the business under proposed real estate segment is yet to commence.
- The above is an extract of the detailed format of Audited Consolidated and standalone Financial Results for the Quarter and Year ended 31 st March, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
- The full format of the Consolidated and standalone Financial Results for the Quarter and Year ended 31 st March, 2021 are available on the website of the company i.e. www.pdindia.com and on the website of BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com).

For and on behalf of Board of Directors

Govind Das Garg Whole Time Director

(Rs in Lakh except Earning Per Share)

SHIVALIK AGRO POLY PRODUCTS LIMITED

Registered office: Plot No.1, Sector-3, Industrial Area, Parwanoo (H.P.)-173220 Corporate Office: B-45, Phase III, Industrial Area, Mohali (Punjab.)-160055 Phone: 0172-2227087-88 Fax: 0172-2270349 Email: saplmoh@sappl.co.in Web site: shivalikagropoly.com CIN: U15131HP1976PLC003703

NOTICE

(For kind attention of the equity shareholders of the company) Subject: Transfer of unclaimed dividend (F.Y. 2013-14) and corresponding equity shares of the company held by the shareholders to the account of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority.

Pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (as amended up to date) (the Rules), members are here by informed that unclaimed dividend for the financial year ended on 31.03.2014 and their corresponding shares held by the shareholders if any in respect of which the dividend has not been paid or claimed by them for seven consecutive years or more from the financial year 31.03.2014 will be due for transfer to Investor Education and Protection Fund (IEPF) on or after 06.10.2021. The Company has communicated individually to the concerned shareholders at their latest available address whose dividend and shares are liable to be transferred to IEPF authority under the said Rules for taking appropriate action

The company has uploaded full details of such shareholders indicating dividend amount and no. of shares due for transfer to Account of IEPF Authority on its website www.shivalikagropoly.com at web link http://www.shivalikagropoly.com/ List_of_unclaimed_dividend for_TRF_to_IEPF.aspx and http://www.shivalikagropoly.com/ List of share for TRF to IEPF.aspx

The concerned Shareholders are requested to claim their unclaimed dividend amounts before the above said date i.e 06.10.2021 failing which the company will proceeds to transfer the unclaimed dividend and respective shares to the account of IEPF Authority in accordance with the said provisions of law and relevant rules. Shareholders may note that both the unclaimed or unpaid dividend and corresponding shares once transferred to IEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from IEPF Authority after following the procedure prescribed by the Rules.

The concerned shareholder, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to DEMAT Account of IEPF Authority, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer the same to DEMAT Account of IEPF Authority as per Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which stand registered in their names shall stand automatically cancelled and be non-negotiable. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded as adequate notice in respect of issue of new share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of share to DEMAT Account of IEPF Authority pursuant to the Rules

In case, the shareholders have any query on the subject matter, they may contact the company's Share Transfer Agents at Abhipra Capital Limited, Mr. Jeewat Rai Tel: 011-42390725, email at rta@abhipra.com or the company at Shivalik Agro Poly Products Limited, Mr. B L Jain B-45, Phase III, Industrial Area, Mohali -160055 (PB) Phone: 0172-2227087-88 Fax 0172-2270349, Email: bljain@sappl.co.in

For Shivalik Agro Poly Products Limited

Place: Mohali(Punjab) Dated: 01.07.2021

Finance Controller & Company Secretary

B L Jain

BRAJ BINANI GROUP

Place: Indore

BINANI INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: 37/2, Chinar Park, New Town Rajarhat Main Road, PO Hatiara, Kolkata - 700 157, India Corporate Office: Mercantile Chambers, 12 J.N.Heredia Marg, Ballard Estate, Mumbai - 400 001, India CIN No. L24117WB1962PLC025584

Extract of Standalone & Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2021

3			Standalone			Ş		Consolidated		
NAMES OF A POST OF THE PARTY OF	17400000 100000000 J	Quarter Ended		Year	Ended		Quarter Ended		Year E	nded
Particulars	31.03.2021 31.12.2020	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
5.04.055.04.050.0	Audited	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
Total Income from Operations	183	26	280	237	1,681	420	116	46,292	913	173,704
Profit / (Loss) from ordinary activities (Before tax and Extraordinary and Exceptional Items)	67	(150)	12	(316)	540	(350)	(159)	(16,666)	(1,336)	(28,141)
Net Profit / (Loss) from ordinary activities (After tax and Extraordinary and Exceptional Items)	67	(150)	14	(317)	(10,283)	39,988	(7,936)	(82,292)	27,982	(125,513)
Total Comprehensive Income / (Loss) for the period (Comprising Profit for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax)	67	(150)	20	(322)	(10,276)	39,983	(7,936)	(82,258)	27,978	(125,479)
Paid- up Equity Share Capital (Face Value per share Rs.10 each)	3,138	3,138	3,138	3,138	3,138	3,138	3,138	3,138	3,138	3,138
Other Equity (Excluding Revaluation Reserve/ Business Reorganization Reserve)	19	ją.	20	¥8	8	14	9	2	2))	9
Earnings Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) (not annualised)										
(a) Before Extraordinary items- Basic & Diluted	0.21	(0.48)	0.04	(1.01)	(32.78)	131.63	(25.30)	(262.30)	93.36	(395.73)
(b) After Extraordinary items- Basic & Diluted	0.21	(0.48)	0.04	(1.01)	(32.78)	131.63	(25.30)	(262.30)	93.36	(395.73)

1. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and other Disclosure Requirements) Regulation , 2015. The full format of the unaudited financial results are available on the Company's website www.binaniindustries.com or at the websites of BSE (www.bseindia.com) or NSE (www.nseindia.com) or CSE (www.cse-india.com)

2. The Statement of Standalone & Consolidated unaudited Financial Results of the Company for the Quarter and Year ended March 31, 2021 have been reviewed by the Audit Committee and approved by Board of Directors at their meeting held on June 30, 2021.

> By order of the Board For BINANI INDUSTRIES LIMITED Visalakshi Sridhar Managing Director, CFO and Company Secretary

Place: Mumbai Date : June 30, 2021

Haq, ek behtar zindagi ka.

Notice For Declaration Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal

UTI Arbitrage Fund

Name of the Plan	Divid	lantum of lend (Gross utable Amt.)*	Record Date	Face Value (per unit)	NAV as on 30-06-21 (per unit)
annound of the control of the contro	% ₹ per unit		and the same	(I) see tous see [1].	₹
UTI Arbitrage Fund - Income Distribution cum capital withdrawal Option – Regular Plan		0.0500	Wednesday	3 10.00	15.7642
UTI Arbitrage Fund - Income Distribution cum capital withdrawal Option – Direct Plan	- 0.50	0.0500	July 07, 2021	₹10.00	17.0357

*Distribution of above dividend is subject to the availability of distributable surplus as on record date. Income distribution cum capital withdrawal payment to the investor will be lower to the extent of statutory levy (if applicable).

Pursuant to payment of dividend, the NAV of the income distribution cum capital withdrawal options of the scheme would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

Such of the unitholders under the income distribution cum capital withdrawal option whose names appear in the register of unitholders as at the close of business hours on the record date fixed for each income distribution cum capital withdrawal distribution shall be entitled to receive the income distribution cum capital withdrawal so distributed. The reinvestment, if any, shall be treated as constrictive payment of income distribution cum capital withdrawal to the unitholders as also constructive receipt of payment of the amount by the unitholders. No load will be charged on units allotted on reinvestment of income distribution cum capital withdrawal.

Mumbai July 01, 2021

Toll Free No.: 1800 266 1230

Website: www.utimf.com

The time to invest now is through - UTI SIP

REGISTERED OFFICE: UTI Tower, "Gn" Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (El, Mumbai - 400051 Phone: 022 - 66786666. UTI Asset Management Company Ltd. [Investment Manager for UTI Mutual Fund] E-mail: invest@uti.co.in, [CIN-U65991MH2002PLC137867].

For more information, please contact the nearest UTI Financial Centre or your AMFI/ NISM certified Mutual fund distributor, for a copy of Statement of Additional Information, Scheme Information Document and Key Information Memorandum cum Application Form. UTI-SIP is only an investment approach applied to various equity, debt and balanced schemes of UTI Mutual

Fund (UTI MF) and is not the name of a scheme / plan of UTI MF. Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

SALE NOTICE

Vandana Vidhyut Limited (In Liquidation) Liquidator: Mr. Sanjay Gupta

Registered Office: Vandanaa Bhawan, M.G. Road, Raipur CT 492001, IN. E-mail ID: assetsale2@aaainsolvency.in; vandana.vidhyut@aaainsolvency.com. Contact No.:+91 8800865284 (Mr. Wasim/Mr. Puneet Sachdeva)

E-Auction

Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

Date and Time of E-Auction: 23rd July, 2021 at 03.00 pm to 05.00 pm (With unlimited extension of 5 minutes each)

Last date of submission of EMD: 21st July, 2021

Sale of Assets and Properties owned by Vandana Vidhyut Limited (in Liquidation) forming part of Liquidation Estate formed by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Cuttack Benchvide order dated 16th December, 2019. The sale will be done by the undersigned through the e-auction platform https://aaa.auctiontiger.net.

Asset Description	Block	Price (In Rs.)		al Value (In Rs.)	
Thermal Power Plant 2x135 MW Capacity (Complete plant on Slump Sale basis) Leasehold Land (Area 644.69 Acres), and Building including shed along with plant and machinery situated at Korba, Chhattisgarh	A	341 Crores	17 Crores	2 Crores	

Terms and Condition of the E-auction are as under

- E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" through approved service provider M/S E-Procurement Technologies Limited (Auction Tiger)
- 2. The EMD of the Successful Bidder shall be retained towards part sale consideration and the EMD of unsuccessful bidders shall be refunded. The Liquidator can retain the EMD of H2 bidder too. The EMD shall not bear any interest. The Liquidator will issue a Letter of Intent (LOI) to the Successful Bidder and the Successful Bidder shall have to deposit the balance amount (Successful Bid Amount - EMD Amount) within 30 days on issuance of the LOI by the Liquidator.
- 3. Default in deposit of the balance amount by the successful bidder within the time limit as mentioned in the LOI would entail forfeiture of the entire amount deposited (EMD + Any Other Amount by the Successful Bidder. In such case, the Liquidator would have right to invite the H2 bidder to become successful Bidder.
- The Liquidator has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/postpone/cancel the e-Auction (even after receiving the bid) or withdraw any property or portion thereof from the auction proceeding at any stage without assigning any reason thereof. 5. After payment of the entire sale consideration, the sale certificate/agreement will be issued in the
- name of the successful bidder only and will not be issued in any other name. All the terms and conditions are to be mandatorily referred from the website of AAA Insolvency

Professionals LLP i.e. **https://insolvencyandbankruptcy.in**/ and from the E-Auction Process Document, prior to submission of EMD and participation in the process. The Liquidator can be contacted on vandana.vidhyut@aaainsolvency.com. Sd/

IBBI Rean. No. IBBI/IPA-001/IP-P00117/2017-18/10252 Address: E-10A, Kailash Colony, Greater Kailash - I, New Delhi 110048 Email ID: assetsale1@aaainsolvency.in; sanjaygupta@aaainsolvency.com Date: 01.07.2021 Place: Delhi Contact No.: 011 4666 4627; +91 8800865284 (Mr.PuneetSachdeva/Md. Wasim)

ARC FINANCE LIMITED

18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No 4, 4th Floor, Room No 3, Kolkata-70000 CIN No: L51909WB1982PLC035283 AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER AND YEAR ENDED ON 31TH MARCH, 2021 Rs. Lacs except EPS

	PARTICULARS	Quarter ending (31/03/2021)	in the previous year (31/03/2020)	previous year ended (31/03/2021)
	Total income from operations(net)	345.56	650.72	419.09
	Net Profit/ (Loss) from Ordinary			
	Activities after tax	46.25	(11.06)	18.60
	Net Profit/ (Loss) for the period after			
	tax (after Extraordinary items)	46.25	(11.06)	18.60
	Equity Share Capital	5,049.50	5,049.50	5,049.50
	Reserves (excluding Revaluation			
	Reserve as shown in the balance			
	sheet of previous year)	-	-	-
	Earning Per Share (of Rs. 10/-each)			
	Basic	0.092	(0.022)	0.037
	Diluted	0.092	(0.022)	0.037
- 1		N/ A		

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI(Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. **ARC FINANCE LTD**

> **APARNA SHARMA** Director DIN: 7006877

Standalone

Place: Kolkata Date: 30.06.2021

DACON

DUCON INFRATECHNOLOGIES LIMITED Regd. Off.: Ducon House, A/4, MIDC Wagle Industrial Estate, Road No. 1, Thane (W)-400 604. CIN No: L72900MH2009PLC191412

Web site: www.duconinfra.co.in Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended March 31, 2021

Sr. No.	Particulars	Quarter ended March 31, 2021	Quarter ended March 31, 2020	Year ended March 31, 2021		
1.	Total Income from Operations	10,051.48	16,943.55	34,249.70		
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-74.44	95.14	53.72		
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-74.44	95.14	53.72		
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-59.47	74.69	41.55		
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-56.31	73.66	43.72		
6.	Equity Share Capital	1,766.75	1,046.75	1,766.75		
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-00		12,800.62		
8.	Earnings Per Share (of Re.1/- each) (for continuing and discontinued operations) -					
	1. Basic:	(0.03)	0.07	0.02		
	2. Diluted:	(0.03)	0.07	0.02		

Note: The Audit committee has reviewed the above financial results and board of directors have approved the above results at its respective meetings held on June 30, 2021. The above is an extract of the detailed format of Audited Standalone Financial Results for the Quarter and Year Ended on March 31, 2021 filed with the Stock Exchanges on June 30, 2021 under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015. The full format of the Audited Financial Results for the quarter & year ended on March 31, 2021 are available on the Company's website www.duconinfra.co.in and on the Stock Exchange website www.bseindia.com and www.nseindia.com. For Ducon Infratechnologies Limited.

> for and on behalf of Board of Directors Arun Govil Harish Shetty

Managing Director Executive Director & CFO DIN:07144684 Date-30.06.2021 DIN: 01914619



APL APOLLO TUBES LIMITED Regd. Office: 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092

Corporate Identity Number: L74899DL1986PLC023443 Tel.: 91-11-22373437. Fax: 91-11-22373537 Website: www.aplapollo.com . email: investors@aplapollo.com

NOTICE OF 36"ANNUAL GENERAL MEETING. BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION TO MEMBERS

This is in continuation to our earlier communication given on June 30, 2021, whereby Members of APL Apollo Tubes Limited ("the Company") were informed that in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder and the SEB (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ['SEBI (LODR) Regulations"] read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated

May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021issued by

the Securities and Exchange Board of India, it was decided to convene the 36" Annual

General Meeting ("AGM") of the Company on Friday, July 23, 2021 at 11:00 A.M. through

Video Conferencing ("VC")facility, without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the business as set out in the Notice of 36"AGM. The process of sending the Notice of 36"AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year ended March 31, 2021 along with login details for joining the AGM through VC facility including e-voting has been completed on Thursday, July 1, 2021 through e-mail to all those Members whose e-mail addresses were registered with the Company or the Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants ("DP") in accordance with the above MCA Circulars and SEBI Circulars, and the same are also

available on Company's website (www.aplapollo.com), Stock Exchanges' websites www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the website of Central Depository Services Limited ("CDSL") (www.evotingindia.com). In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with the Companie Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, Secretarial Standard - 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India and MCA Circulars, the Members are provided with the facility to cast their votes

electronically through remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) services provided by CDSL on all resolutions set forth in the Notice of the 36" AGM. The remote e-voting shall commence on Tuesday, July 20, 2021(10.00 A.M.) and shall end on Thursday, July 22, 2021 (5.00 P.M.). During this period, members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Friday, July 16, 2021 ("Cut-

off date") may cast their votes electronically. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting. All the members are informed that: The Ordinary and the Special Businesses as set out in the Notice of AGM will be

- transacted through voting by electronic means; A person who is not a Member as on the cut off date should treat this Notice for information
- Any person, who acquires shares and becomes a Member of the Company after the date of electronic dispatch of the Notice of 36th AGM and holding shares as on the Cut-off date,
- may obtain the Login ID and Password by following the instructions as mentioned in the Notice of the 36th AGM or sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if he/she is already registered with CDSL for remote e-voting, then he/she can use his/her existing User ID and password to cast their vote; and Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by the CDSL
- after the aforesaid date and lime for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again: c) the facility for voting through electronic mode shall be made available at the AGM: and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as

f you have not registered your e-mail address with the Company/DP, you may please follow he below instructions for obtaining login details for e-voting:

Please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), self attested scanned Holding copy of PAN card, self attested scanned copy of Aadhar Card or any other document as proof of address by email to Company: investors@aplapollo.com or to RTA: rta@abhipra.com Please provide Demat account detials (CDSL-16 digit beneficiary ID or

Holding NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, self attested scanned copy of Aadhar Card or any other document as proof of address to Company: investors@aplapollo.com or to RTA: rta@abhipra.com Further, pursuant to the provisions of Section 91 of the Act and Rules framed thereunder and

Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, the Register of Members and Share Transfer

Books of the Company will remain closed from Thursday, July 17, 2021 to Friday, July 23, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 36" AGM. Shri Jatin Gupta, Practicing Company Secretary (Membership No.: FCS 5651;: COP No.

5236), has been appointed as Scrutinizer by the Company to scrutinize the entire e-voting process in a fair and transparent manner.

The result of voting will be declared within 2 working days from the conclusion of AGM i.e. on or before July 27, 2021 and results so declared along with the consolidated Scrutinizer's Report will be placed on the Company's website (www.aplapollo.com) and CDSL's website (www.evotingindia.com) and simultaneously communicated to the stock exchanges i.e. BSE

imited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, where the Company's shares are listed. f you have any queries or issues regarding attending AGM or e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to

helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022- 23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542). For and on behalf of

APL Apollo Tubes Limited Deepak C S Company Secretary

M.No.: F5060

New Delhi

Sanjay Gupta (Liquidator)

Vandana Vidhyut Limited in Liquidation

Date: July 1, 2021 Place: Delhi





एतदद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने पत्र सं. एफ नं. 21-34 / 202-1ए.III दिनांक 29.06.2021 के तहत, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के यथा लागू प्रावधानों के अनुरूप, मैसर्स डीएलएफ होम डेवलपर्स लिमि. द्वारा प्लाट नं. 1 एवं 2 नजफगढ रोड / शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली पर विकसित की जा रही "ध्यवासायिक परिसर का विकास" परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।

स्वीकति पत्रं की प्रतियां पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट पर भी देखी जा सकती हैं।

यह सार्वजनिक उक्त व्यावासायिक परियोजना को प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुपालन में जारी की जाती है।

(अधिकत हस्ताक्षरी डीएलएफ होम डेवलपर्स लिमि डीएलएफ सेंटर, संसद मार्ग, नई दिल्ली



शाखाः देहरादून मेन, राजपुर रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए नियम 8(1))

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित का प्रभावीकरण अधिनियम 2002 (2002 का 3) के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **देहरादून मेन शाखा, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड** से सम्बन्धित मैसर्स लक्ष ऑप्टिकल्स, श्रीमती नीटू श्रीवास्तव एवं श्री आशु श्रीवास्तव, समी निवासी: 23/3ए राज निकुंज एन्क्लेव कौलागढ़ रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड। के सामने दर्शाये गए खातें में उनके नामों के सामने दी गई तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि रू0 2296205.00 / - (रूपये बाईस लाख छियानबे हजार दो सौ पांच) बिजनेस लोन 306806170000001 दिनांक 31.03.2021 ब्याज + अन्य खर्चे अदा करने के लिए **मांग** नोटिस नं0 RODDN:CRD:S-618-1:21 दिनांक 07.04.2021 को जारी किया था।

ऋणियों द्वारा राशि अदा करने में असफल होने पर ऋणी / ऋणियों और जनसामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्ति का कब्जा उनके खाते के सामने दी गई दिनांक 29.06.2021 पर ले लिया है।

ऋणियों / गारन्टरों को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावर्न दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन–देन न करें। इन सम्पत्ति से किसी प्रकार का लेन-देन देहरादून मेन शाखा, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड को देय राशि रू० 2296205.00 / - (रूपये बाईस लाख छियानवे हजार दे सौ पांच) बिजनेस लोन 306806170000001 दिनांक 31.063.2021 ब्याज + अन्य खर्चे के चार्ज के पूर्ण भूगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभृति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ मे अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है। अचल सम्पत्तियों का विवरण

बंधक आवासीय मकान म्यूनिसिपल नं0 147/1, राजपुर रोड, देहरादून, भूमि खसर नं0 310 Ka का भाग (पुराना खसरा नं0 274 एवं 275), कुल क्षेत्रफल 158.29 वर्ग मीटर कवर्ड क्षेत्रफल 92,75 वर्ग मीटर स्थित मौजा जखन, परगना पछवा दून, देहरादून

स्थान- देहरादून

दिनांक- 29.06.2021

अधिकृत अधिकारी

युनियन बैंक ऑफ इंडिया

सामने-भारती फूड्स रमण रेती रोड, वृन्दावन, मथुरा-281121, उत्तर प्रदेश गोल्ड की निजी बिक्री के लिये सुचना

आपका सम्पूर्ण बैंकिंग पार्टनर पंजी. कार्यालयः अलवाये. केरल

सभी संबंधितों की जानकारी के लिये एतददारा सचित किया जाता है कि बैंक की नीचे वर्णित शाखाओं में निम्न गोल्ड ऋण खाताओं में गिरवी रखी गई स्वर्ण आभषणों जो विमोचन के लिये अधिशेष हैं तथा जिसे बार-बार सचना देने के बावजद अभी तक विनियमित नहीं किया गया है, को नीचे वर्णित रूप में 16.07.2021 को या उसके बाद शाखा में नीलामी के लिये रखी जायेगी

मथुरा-281121, उत्तर प्रदेश

तिथि: 1.7.2021			द फेडरल बैंक लि.
स्थानः वृन्दावन			शाखा प्रबंधक
		विजय सिंह	22236200000432
बिहारी लाल	22236100001985	मनीश कुमार शर्मा	22236100002744
राज कुमार	22236400000554	मनीश कुमार शर्मा	22236100002066
मीना तोमर	22236400004358	तुलसी	22236100000920
हरेन्द्र तोमर	22236400004390	तुलसी	22236200000341
हरेन्द्र तोमर	22236400004374	तुलसी	22236100002082
हरेन्द्र तोमर	22236400004382	शिवन सैनी	22236100002355
मुकेश तोमर	22236400004366	शिवन सैनी	22236100002041
सीमा देवी	22236400004408	सीमा देवी	22236400004457
सीमा देवी	22236400004325	विक्रम सिंह	22236100002025
सुखबीर सिंह	22236100001886	विजय सिंह	22236200000382
केशव सिंह	22236400004275	ममता गुप्ता	22236100001993
	खाता सख	या एवं नाम	

ओरिएन्ट बेल लिमिटेड

सीआईएन : L14101UP1977PLC021546 पंजीकृत कार्यालय : 8, इण्डस्ट्रियल एरिया, सिकन्दराबाद-203205, जिला बुलन्दशहर, उ.प्र. कॉर्पोरेट कार्या: आइरिस हाउस, 16, बिजनेस सेंटर, नांगल राया, नई दिल्ली-110046 दुरभाष : +91-11-47119100, ई-मेल आईडी : investor@orientbell.com Website: www.orientbell.com

वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमां (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली 44वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) से सम्बन्धित जानकारी

एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी की 44वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम),सोमवार, 26 जुलाई, 2021 को 11.00 बजे पूर्वा. में कम्पनी अधिनियम, 2013 के लाग होने वाले प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार द्वारा तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी लागृ होने वाले सभी प्रावधानों के अनुपालन में विडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम के आमंत्रण की सचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय अर्थात 8 इंडस्ट्रियल एरिया, सिकन्दराबाद-203205, जिला बलन्दशहर (उ.प्र.) को एजीएम के उदेश्य से आयोजन स्थल माना जायेगा।

एमसीए तथा सेबी द्वारा जारी होने वाले सर्क्युलर्स के अनुपालन में एजीएम की सुचना तथा वित्त वर्ष 2020-21 के वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से कम्पनी के ऐसे सदस्यों को भेज दिये गये हैं जिनके ईमेल पते कम्पनी/रजिस्टार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत थे। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईट www.orientbell.com के साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाईट अर्थात बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें 20 जुलाई, 2021 से 26 जुलाई, 2021 (दोनों दिवस सिहत) तक बंद रहेंगे तथा कट-ऑफ तिथि 19 जुलाई, 2021 को 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिये लाभांश प्राप्त करने तथा 44वें एजीएम में भाग लेने के लिये अधिकत शेयरधारकों को सनिश्चित करने के लिये संबंधित तिथि माना जायेगा।

ई-वोटिंग द्वारा मतदान का तरीका

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के संबंधित प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार यह कम्पनी एनएसडीएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है तथा व्यवसायों को इस मतदान प्रणाली से निष्पादित किया जा सकता है। कपया निम्नलिखित पर ध्यान दें।

सदस्यगण इलेक्ट्रानिक मतदान प्रणाली (''ई-वोटिंग'') द्वारा एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर अपना मतदान कर सकते हैं। डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति, भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों तथा ऐसे सदस्यों जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, द्वारा सुदुर से मतदान करने (''ई-वोटिंग'') की प्रक्रिया एजीएम की सुचना में दी गई है। कुपया निम्नलिखित पर ध्यान दें:

(क) कट-ऑफ तिथि अर्थात 19 जुलाई, 2021 को भौतिक पद्धति या डीमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्य इस रिमोट ई-वोटिंग द्वारा सचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर इलेक्टॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं।

(ख) यदि कोई व्यक्ति सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात 19 जलाई, 2021 को शेयर धारित करते हैं, वे अपने फोलियो नं./डीपी आईडी तथा क्लाइंट आईडी का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in अथवा admin@mcsregistrars.com पर ई-मेल भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन, यदि वे ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से ही पंजीकत हैं तो अपना मतदान करने के लिए वे अपने वर्तमान यजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

(ग) रिमोट ई-वोटिंग अवधि शक्रवार, 23 जलाई 2021 को 9.00 बजे पर्वा. (आईएसटी) में शरू होगी तथा शनिवार, 25 जलाई 2021 को 5.00 बजे अप. (आईएसटी) में बंद होगी। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जाएगी।

(घ) उक्त तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जायेगी। (ङ) जिन सदस्यों ने सभा से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों वे एजीएम में

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से शामिल हो सकते हैं लेकिन सभा में फिर से अपना मतदान करने के लिए अधिकत नहीं होंगे।

(च) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभ-भोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होगा, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग अथवा सभा में मतदान की सविधा प्राप्त करने के लिये अधिकत होंगे।

(छ) एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली द्वारा मतदान की सविधा भी उपलब्ध कराई जायेगी तथा वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में शामिल होने वाले ऐसे सदस्यों जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा पहले मतदान नहीं किये हों. वे सभा के दौरान अपने अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम

स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में रिमोट ई-वोटिंग तथा सभा के दौरान ई-वोटिंग का संचालन करने के लिये सश्री अंश गप्ता, कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियक्त किया गया है।

भौतिक पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों जिनके ईमेल पते अभी तक कंपनी के पास पंजीकत नहीं कराये हों, वे investor@orientbell.com पर कम्पनी अथवा कम्पनी के रजिस्टार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट (''आरटीए''), एमसीएस शेयर ट्रान्सफर एजेन्ट लिमिटेड, एफ-65, ओखला इंडस्टियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110020 टेली, नं. 011-41406149 को admin@mcsregistars.com पर सचित कर (लिखकर अपने ईमेल पते तथा मोबाइल नम्बर पंजीकत करा सकते हैं तथा ऐसे सदस्यों जो डीमैट पद्धित में शेयर धारित करते हैं. वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्टस के पास अपना ईमेल पता तथा मोबाइल नम्बर्स को अद्यतन करा सकते हैं। किसी भी प्रकार की पछताछ के लिये सदस्य +91-11-47119100 पर अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क करें अथवा investor@orientbell.com पर अधोहस्ताक्षरी को लिखें अथवा आईरिस हाउस. 16 बिजनेस सेंटर, नांगल राया, नई दिल्ली-110046 में कॉर्पोरेट कार्यालय के पते पर अपनी जिज्ञासाएं भेजें।

n orientbell

ऑरिएन्ट बेल लिमिटेड के लिये हस्ता/-

डाएच्च बैक एजी परिशिष्ट IV [नियम 8 (1)] कब्जा सुचना

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत ड्यूटश्चे बैंक एजी, इंडिया (''बैंक'') के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 7.12.2019 जारी कर ऋणधारक मै. सौरभ इंडिया प्रा. लि. (''ऋणधारक''). श्री अशोक कमार बंसल, श्रीमती सुनीता बंसल एवं श्री सौरभ बंसल (सह-ऋणधारकों) को उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 8,20,64,623.76 (रुपए आठ करोड़ बीस लाख चौंसठ हजार छह सौ तैईस एवं पैसे छियत्तर मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि आज, 30 जुन, 2021 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली

प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 8,20,64,623.76 (रुपए आठ करोड़ बीस लाख चौंसठ हजार छह सौ तैईस एवं पैसे छियत्तर मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का

अचल सम्पत्ति का विवरण फ्लैट नं. 3 बी, दुसरा तल, प्लॉट नं. बीपी-08, जंगपूरा-बी, नई दिल्ली-110014, माप 750 वर्ग यार्ड्स लगभग की स्वतः संतुष्ट आवासीय सम्पत्ति जिसकी चौहद्दी इस प्रकार है: उत्तर: प्लॉट नं. 9, दक्षिणः प्लॉट नं. ७ ए, पूर्वः रोड, पश्चिमः लेन

दिनांक : 02.07.2021

स्थान : नई दिल्ली

शाखाः देहरादून मेन, राजपुर रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

कब्जा स्वना (अचल सम्पत्ति के लिए नियम 8(1))

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित का प्रभावीकरण अधिनियम 2002 (2002 का 3) के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **देहरादन मेन शाखा, राजपुर रोड, देहरादन, उत्तराखण्ड** से सम्बन्धित श्री आयुष अरोरा, श्री बलदेव राज एवं श्रीमती साधना अरोरा, निवासी: 8 दीप लोक कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड- 248001 एवं श्री राजीव श्रीवास्तव, निवासीः 23 / 3ए राज निकुंज एन्क्लेव, कौलागढ़ रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड के सामने दर्शाये गए खातें में उनके नामों के सामने दी गई तारीख से 60 दिनों के मीतर बकाया राशि रू0 4285049.00 /- (रूपये बयालीस लाख पचासी हजार उनचास रूपये) बिजनेस लोन 306806170000125 एवं 306804060000003 दिनांक 31.03.2021 ब्याज + अन्य खर्चे अदा करने के लिए मांग नोटिस नं0 RODDN:CRD:S-617-125:21 दिनांक 07.04.2021

ऋणियों द्वारा राशि अदा करने में असफल होने पर ऋणी / ऋणियों और जनसामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साध पढते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्ति का कब्जा उनके खाते के सामने दी गई **दिनांक 29.06.2021** पर ले

ऋणियों / गारन्टरों को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी सम्पत्ति से किसी प्रकार का लेन-देन देहरादून मेन शाखा, राजपुर रोड, देहरादून, 03.2021 ब्याज + अन्य खर्चे के चार्ज के पूर्ण भूगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभृति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में

अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

मीटर एवं सभी भूतल खसरा नं0 310, भूमि माप 42 वर्ग मीटर, कवर्ड क्षेत्र सीढियाँ सहित 27.14 वर्ग मीटर एवं सभी सम्पत्ति प्रथम तल भूमि, खसरा नं0 312 Ka, कुल क्षेत्रफल 100. 42 वर्ग मीटर, स्थित मेन रिंग रोड, मौजा नथनपुर, परगना परवादून, देहरादून,

दिनांक- 29.06.2021 स्थान- देहरादुन

कॉर्पोरेट पहचान संख्या : L74899DL1986PLC023443 दुरभाष : 91-11-22373437. फैक्स : 91-11-22373537

36वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर एवं ई-वोटिंग की सदस्यों को सूचना

लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों को सचित किया गया था कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके तहत निर्मित नियमों एवं कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020, 20/2020 तथा 02/2021 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 तथा 13 जनवरी, 2021 (''एमसीए परिपत्र'') के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 [''सेबी (एलओडीआर) विनियम''] तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा निर्गत परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020179 दिनांक 12 मई. 2020 तथ SEBI/MO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी. 2021 के अनपालन में निदेशक मण्डल ने 36वीं एजीएम की सचना में निर्धारित प्रकार्य के लेन-देन के लिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से कम्पनी

(www.aplapollo.com), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों (www.bseindia.com तथ www.nseindia.com) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ("सीडीएसएल") की वेबसाइट

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम, के विनियम 44, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा निर्गत सचिवीय मानक-2 तथा एमसीए परिपत्रों के अनपालन में सदस्यों को 36वीं एजीएम में निर्धारित समस्त संकल्पों पर सीडीएसएल द्वारा प्रावधानित रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पर्व) तथा ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) के माध्यम से सदस्यो

रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 20 जुलाई, 2021 (10.00 बजे प्रात) प्रारम्भ होगी और बृहस्पतिवार, 22 जुलाई 2021 (5.00 बजे सायं) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान कट-ऑफ तिथि अर्थात शक्रवार. 16 जलाई. 2021 (''कट-ऑफ तिथि'') तक भौतिक प्रारूप या डीमैटीरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य अपना मतदान कर सकते हैं। इसके पश्चात रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर

सदस्य कपया ध्यान दें कि :

. एजीएम की सचना में निर्धारित सामान्य तथा विशेष व्यवसाय इलेक्टॉनिक साधनों द्वारा मतदान के माध्यम

. जो सदस्य कट–ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है वह इस नोटिस को केवल सचना के उददेश्य से समझे कोई व्यक्ति जो शेयर अर्जित करता है और 36वीं एजीएम की इलेक्टॉनिक सचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है, वह 36वीं एजीएम की सुचना में उल्लिखित निर्देश का अनुपालन करके अथवा helpdesk.evoting@cdslindian.com पर निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि यदि वह ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से पंजीकृत है तो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम अपना मतदान करने के लिए

सदस्य कृपया ध्यान दें कि : (अ) उपर्यक्त तिथि एवं समय के उपरान्त सीडीएसएल द्वारा मतदान हेत रिमोट ई-वोटिंग मॉडयल निष्क्रिय कर दिया जायेगा और सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर एक बार मतदान कर लेने के उपरान्त बाद में सदस्य को इसे परिवर्तित करने की अनमित नहीं दी जायेगी. (ख) जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर लिया है वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं किन्त एजीएम के दौरान पनः मतदान करने के पात्र नहीं होंगे. (ग) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान हेत सविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जायेगी, तथा (घ) कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि तक संदरयों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा केवल वे ही एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सविधा ग्रहण करने के पात्र होंगे। यदि आपने अपना ई-मेल पता कम्पनी/डीपी के साथ पंजीकृत नहीं कराया है तो ई-वोटिंग हेत् लॉगिन विवरण

प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज ई-मेल द्वारा कम्पनी के पास investors@aplapollo.com पर

डीमैट कपया डीमैट खाता विवरण (सीडीएसएल-16 अंक का लाभार्थी आईडी अथवा एनएसडीएल-16 अंक का **धारिता** डीपीआईडी + सीएलआईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति. आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति अथवा पते के प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज ई-मेल द्वारा कम्पनी के पास investors@aplapollo.com पर अथवा आरटीए की ई-

पनः अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों तथा उसके तहत निर्मित नियमों एवं सेबी (एलओडीआर) विनियमों वे विनियम 42 के अनसार सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण परितका 36वीं एजीएम के उददेश्य हेतु बृहस्पतिवार, 17 जुलाई, 2021 से शुक्रवार, 23 जुलाई, 2021 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेगी। सम्पूर्ण ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संवीक्षा के लिए कम्पनी द्वारा श्री जितन गुप्ता, कार्यरत कम्पनी सचिव (सदस्य सं. : एफसीएस 5661, सीओपी नं. 5236) को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया

या इससे पर्व कर दी जायेगी और इस प्रकार घोषित परिणाम संवीक्षक की समेकित रिपोर्ट के साथ कम्पनी की वेबसाइट (www.aplapollo.com) तथा सीडीएसएल की वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर अपलोड कर दिये जायेंगे और तत्काल ही इसकी सचना स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड तथी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर दे दी जायेगी जहाँ कम्पनी के शेयर सचीबद्ध हैं।

एजीएम में शामिल होने या ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग से सम्बन्धित किसी पृछताछ या समस्या के लिए सदस्य www.evotingindian.com पर हेल्प खण्ड के तहत उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (''एफएक्य'') तथा ई-वोटिंग मैनअल का सन्दर्भ ले सकते हैं helpdesk.evoting@cdslindian.com पर सम्पर्क करें या श्री नितिन कुन्दर (022-23058738) य श्री महबूब लखानी (022-23058543) या श्री राकेश दलवी (022-23058542) से सम्पर्क करें।

दीपक सीएस कम्पनी सचिव सदस्यता सं. : F5060 Place: Mumbai

Date: July 1, 2021

फ्रैकलिन लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड

CIN No: U74899DL1992PLC048028 यूनिट/शॉप नं. 205, दूसरा तल, अग्रवाल सिटी माल रोड नं. 44, पीतमपुरा दिल्ली-110034 31 मार्च, 2021 को समाप्त छमाही और वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणाम ईपीएस को छोडकर लाखों में

समाप्त पूर्व वर्ष में समाप्त वर्ष दर वर्ष					
	समाप्त	C/			
विवरण	छमाही	छमाही के अनुरूप			
	(31.03.2021)	(31.03.2020)	(31.03.2021)		
प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	410.40	310.38	423.95		
कर के बाद सामान्य गतिविधियों शुद्ध लाभ/(हानि)	14.09	7.42	17.34		
कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	14.09	7.42	17.34		
इक्विटी शेयर पूंजी	1,578.24	1,578.24	1,578.24		
आरक्षित (पूर्व वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त)			2,118.51		
आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का)					
1. मूल	0.089	0.047	0.110		
2. तनुकृत	0.089	0.047	0.110		
टिप्पणी:-		i in			

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण तथा अन्य प्रकृटीकरण अपेक्षाएं) विनियमनों, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत शेयर बाजार में दाखिल की गई छमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है।

कृते फ्रैंकलिन लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड

रमेश कमार डालमिया

निदेशक' स्थानः दिल्ली तिथि: 30.06.2021 DIN No.: 03257468 STANDARD SURFACTANTS LIMITED

Registered Office: 8/15, Arya Nagar, Kanpur-208002 (India) Tel: 0512-2531762 E-mail: headoffice@standardsurfactants.com, Website: www.standardsurfactants.com Corporate Identity Number: L24243UP1989PLC010950

EXTRACT OF STANDALONE RESULTS FOR QUARTER AND YEAR ENDED ON 31.03.2021 (Rs. in Lacs

SI. No.	Particulars	Quarter Ended 31.03.2021 (Audited)	Year Ended 31.03.2021 (Audited)
1.	Total Income from Operations	2371.42	9325.99
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax and items)	57.05	310.86
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	57.05	310.86
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	50.39	217.45
5.	Total comprehensive Income for the period	52.90	219.96
6.	Paid up Equity Share Capital	711.26	711.26
7.	Other Equity	32	1047.02
8.	Earning per share (Face value of Rs. 10/- each):		
	1. Basic	0.74	3.09
	2. Diluted	0.74	3.09

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone quarterly financial results are available on stock exchange websites and on For Standard Surfactants Limited

Board of Directors in their respective meetings held on June 30, 2021. The statutory auditors have carried out

Pawan Kumar Garg Place: Kanpur Chairman & Managing Director Date: 30.06.2021 DIN-00250836

This is only an advertisement for information purposes and is not a prospectus announcement.



AA PLUS TRADELINK LIMITED

Corporate Identification Number: U74900MH2016PLC274726

Our Company was originally incorporated as a public limited company under the Companies Act, 2013 pursuant to a certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai dated March 21, 2016 with the name 'AA Plus Tradelink Limited'. For further details of our Company, see "General Information" and "History and Certain Other Corporate Matters' on pages 33 and 73, respectively of the Prospectus.

Registered Office: : B-702, Divine Jalpa, Gomati Bhuvan, Near Jain Temple, JambliGali, Borivali (West), Mumbai - 400092, Maharashtra, India Tel. No.: +91 22 2898 0308 | Website: www.aaplustradelink.com | E-mail: contact@aaplustradelink.com Contact Person: CS Mansi K. Shah, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTER OF THE COMPANY: ASHOK A. SHAH AND RAJKUMAR M. SINGH

THE ISSUE

PUBLIC ISSUE OF 36,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH OF AA PLUS TRADELINK LIMITED ("OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 18.00 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 8.00 PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 648.00 LAKHS ("THE ISSUE"). OF THE ISSUE, 1,92,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 34.56 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 34,08,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 18.00 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 613.44 LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 44.09% AND 41.74%, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 136 OF THE PROSPECTUS.

ISSUE

OPENS ON: THURSDAY, JULY 8, 2021 CLOSES ON: TUESDAY, JULY 13, 2021

FIXED PRICE ISSUE AT ₹ 18 PER EQUITY SHARE

THE ISSUE PRICE OF ₹ 18.00 IS 1.80 TIMES OF THE FACE VALUE. MINIMUM APPLICATION SIZE OF 8.000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 8.000 EQUITY SHARES THEREAFTER

ASBA*

Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it !!!

*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below.

Mandatory in Public Issues from January 01, 2016 No cheque will be accepted.



Applicants to ensure PAN is updated in Bank Account being blocked by ASBA Bank. List of Banks supporting UPI is also available on SEBI at www.sebi.gov.in For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and abridged prospectus and also please refer to the section "Issue

Procedure" beginning on page 144 of the Prospectus. The process is also available on the website of AIBI and Stock Exchange in the General Information Document. ASBA forms can be downloaded from the website of BSE and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. The Application Forms which do not have the details of the Applicant's depository account including DP ID, PAN, UPI ID (in case of RIBs using the UPI mechanism)

UPI now available in ASBA for retail individual investors applying through Registered Brokers, DPs, & RTAs.

and Beneficiary Account Number shall be treated as incomplete and rejected. In case DP ID, Client ID and PAN mentioned in the Application Form and entered into the electronic system of the stock exchange, do not match with the DP ID, Client ID and PAN available in the depository database, the application is liable to be rejected. Applicants will not have the option of getting allotment of the Equity Shares in physical form. The Equity Shares on allotment shall be traded only in the dematerialised segment of the Stock Exchange. PROPOSED LISTING: The Equity Shares offered through the Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited ("BSE") in terms of the Chapter

IX of the SEBI (ICDR) Regulations, as amended from time to time. Our Company has received an approval letter dated January 1, 2021 from BSE Limited ("BSE") for using its name in the Offer Document for listing of our shares on the SME Platform of BSE. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be the BSE Limited. DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Draft Prospectus was furnished

to SEBI in soft copy. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence, there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 127 of the Prospectus. DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited (BSE) should not in any way be deemed or construed that the contents of the Prospectus or the price at which the equity shares are offered has been cleared, solicited or approved by BSE, nor does it certify the correctness,

accuracy or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to page 129 of the Prospectus for the full text of the Disclaimer Clause pertaining to BSE". **LEAD MANAGER TO THE ISSUE** REGISTRAR TO THE ISSUE COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

INVENTURE

INVENTURE MERCHANT BANKER SERVICES

PRIVATE LIMITED 2nd Floor, Viraj Tower, Nr. Andheri Flyover (North End), Western Express Highway, Andheri (East) Mumbai - 400 069, Maharashtra

Tel No: +91 22 4075 1500 Fax No: +91 22 4075 1511 Email: sme.ipo@inventuremerchantbanker.com

Investor Grievance Email: redressal@inventuremerchantbanker.com

Website: www.inventuremerchantbanker.com SEBI Registration No: INM000012003 Contact Person: Arvind Gala

PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED 9. Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Opp. Kasturba Hospital Lane, Lower Parel (E), Mumbai - 400011, Maharashtra

Tel. No.: +91 22 2301 2518 / 8261 Email: support@purvashare.com

support@purvashare.com Website: www.purvashare.com SEBI Registration No: INR000001112

E-mail: contact@aaplustradelink.com Investor Grievance Email:

AA Plus Tradelink Limited CS Mansi K. Shah B-702, Divine Jalpa, Gomati Bhuvan, Near Jain Temple, JambliGali, Borivali (West), Mumbai - 400092, Tel: +91 22 2898 0308 | Fax: Not Available

Website: www.aaplustradelink.com Investors can contact the Compliance Officer or the Registrar to the Issue in case of any pre-issue or postissue related problems, such as non-receipt of letters of allotment, credit of allotted shares in the respective Contact Person: Deepali Dhuri, Compliance Officer | beneficiary account, etc.

BANKER TO THE ISSUE AND SPONSOR BANK: AXIS BANK LIMITED

AVAILABILITY OF APPLICATION FORMS: The Application Forms and copies of the Prospectus may be obtained from the Registered Office of AA Plus Tradelink Limited, Lead Manager: Inventure Merchant Banker Services Private Limited. Application Forms will be available at the selected location of registered brokers, Banker to the Issue, RTA and Depository Participants. Application Forms can also be obtained from the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. Application Forms can also be downloaded from the website of Stock Exchange at www.bseindia.com.

AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to

the Prospectus and the Risk Factor contained therein, before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus shall be available at the website of SEBI at

www.sebi.gov.in; the website of Stock Exchange at www.bseindia.com, the website of Lead Manager at www.inventuremerchantbanker.com and the website of the Issuer Company at www.aaplustradelink.com RISK TO INVESTORS: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For

taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section, "Risk Factors" on page 17 of the Prospectus.

ADDITIONAL INFORMATION AS REQUIRED UNDER SECTION 30 OF THE COMPANIES ACT, 2013

MAIN OBJECTS OF THE COMPANY AS PER MOA: For information on the main objects and other objects of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 73 of the Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 200

LIABILITY OF MEMBERS AS PER MOA: The Liability of the members of the Company is Limited.

CAPITAL STRUCTURE: Authorized Capital of ₹ 8,25,00,000 consisting of 82,50,000 Equity Shares of ₹ 10 each. Pre Issue Capital: Issued, Subscribed and Paid-up Capital ₹ 4.56.48.000 consisting of 45.64.800 Equity Shares of ₹ 10 each, Post Issue Capital: Issued, Subscribed and Paid-up Capital ₹ 8.16.48.000 consisting of 81,64,800 Equity Shares of ₹ 10 each. For details of the Capital Structure, please refer to the chapter titled "Capital Structure" beginning on page 40 of the Prospectus.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company; Anagha P. Shetty: 24500 Equity Shares; Ashok A. Shah; 25000 Equity Shares; Paresh A Gohil. Hiren M. Parmar, Prakash B. Shetty, Pravin R. Chittoji and Chandu K. Jain: 100 Equity Shares each.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus dated June 30, 2021. Investors should read the Prospectus carefully, including the Risk Factors on page 17 of the Prospectus before making any investment decision.

For AA PLUS TRADELINK LIMITED

On behalf of the Board of Directors

Ashok A. Shah

Managing Director

AA Plus Tradelink Limited is subject to market conditions, public issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Mumbai The Prospectus shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www.inventuremerchantbanker.com, the website of the BSE i.e. www.bseindia.com, and website of the Issuer Company at www.aaplustradelink.com. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details investors should refer to and rely on the Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page 17 of the Prospectus. which has been filed with ROC.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act (the "Securities Act") or any state securities law in United States and may not be Issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in the Regulations under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act of 1933.

सार्वजनिक सूचना

योगेश मेंदीरत्ता कम्पनी सचिव

तिथि : 1 जुलाई, 2021

स्थान : दिल्ली

प्राधिकत अधिकारी. डॉएंच्च बैंक एजी

विशाल चरण,

अधिकृत अधिकारी

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

को जारी किया था।

दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन **उत्तराखण्ड** को देय राशि **रू० 4285049.00/**— (रूपये बयालीस लाख पचासी हजार जनचास रूपये) बिजनेस लोन 306806170000125 एवं 306804060000003 दिनांक 31.

बंधक सम्पत्ति प्रथम तल शामिल भूमि खसरा नं0 312Ka का भाग कुल माप 120 वर्ग



एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 37 हरगोविन्द एन्कलेव विकास मार्ग, दिल्ली-110092

वेबसाइट : www.aplapollo.com ई-मेल : investors@aplapollo.com

यह हमारी पूर्व की सूचना दिनांक 30 जून, 2021 की निरन्तरता में है जिसके द्वारा एपीएल अपोलो ट्यूब्स

की 36वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') 23 जलाई, 2021 को 11.00 बजे पूर्वा, आयोजित करने का 36वीं एजीएम की सुचना तथा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट एवं ई-वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण उन सभी सदस्यों के पास ई-मेल द्वारा बृहस्पतिवार, 1 जुलाई, 2021 को भेजे जा चुके हैं जिनके ई-मेल पते एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र के अनुसार कम्पनी अथवा रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट अथवा उनके सम्बद्ध डिपॉजिटरी भागीदार (''डीपी'') के साथ पंजीकृत हैं, और यह कम्पनी की वेबसाइर

(www.evotingindia.com) पर उपलब्ध हैं।

को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करने की सुविधा उपलब्ध की गयी है।

वह अपने वर्तमान लॉगिन-आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग कर सकता है; तथा

प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन करें : भौतिक कपया आवश्यक विवरण जैसे फोलियो नं.. शेयर धारक का नाम. शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन्ड प्रति (सामने **धारिता** तथा पीछे), पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति, आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति अथवा पते के

अथवा आरटीए की ई-मेल आईडी rta@abhipra.com पर भेजें। मिल आईडी rta@abhipra.com पर भेजें।

मतदान के परिणाम की घोषणा एजीएम की समाप्ति के 2 कार्यदिवसों के भीतर अर्थात 27 जुलाई, 2021 कं

कृते एवं हिते एपीएल अपोलो दुवूब्स लिमिटेड

01.07.2021

www.readwhere.com

नई दिल्ली